

Transliteration–Telugu

Transliteration as per Harvard-Kyoto (HK) Convention
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR IR IRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k kh g gh G
c ch j jh J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
z S s h

zrI rAma rAma rAma-nlAmbari

In the kRti ‘zrI rAma rAma rAma’ – rAga nlAmbari, zrI tyAgrAja sings the praise of the Lord as he puts Him to sleep.

P zrI rAma rAma rAma
zrI mAnas(A)bdhi sOma
nArAyaN(A)pta kAma
naLin(A)kSa pavvaLiJcu (zrI)

C1 pallav(A)dhara varENya
pAp(E)bha siMha dhanya
mallikA talpam(a)ndu
mAdhava pavvaLiJcu (zrI)

C2 dhArA dhar(A)bha dEha
tAr(A)धिp(A)nana sadA
nI rAka kOri(y)uNTi
zrI rama pavvaliJcu (zri)

C3 janaka rAj(i)NTa puTTi
jAnakI ceTTa paTTi
kanakamau suraTi paTTi
kAcinadi pavvaliJcu (zrI)

C4 varNimpa taramu kAni
svarNambu mEnu sltA
pUrNamau bhaktitOnu
pUjiJcu pavvaliJcu (zrI)

C5 Azug(A)zana su-zayana
ambhOja patra nayana
AzatO tyAgarAju
arciJca pavvaliJcu (zrI)

Gist

O Lord zrI rAma! rAma! rAma! O Lord nArAyaNa - the Moon of ocean of the mind of lakSmI! O Lord who has realized all desires! O Lotus Eyed! may you lie down.

O Excellent Lord with blossom like lips! O Lion against elephant(s) of sins! O the Auspicious one! O Lord mAdhava! may You lie down on the bed of jasmine flowers.

O Lord whose body is splendrous like rain-cloud! O Moon Faced! O Lord zrI rAma! I have always been desiring Your arrival; may You lie down.

Having born in the family of King janaka and having married You, jAnaki is now waiting on You holding a golden fan in her hand; may you lie down.

sIta - the brilliance of whose golden-hued body is beyond description, is worshipping You with total devotion; may you lie down.

O Lord reclining nicely on the couch of zESa! O Lotus petal Eyed! may you lie down as this tyAgarAja very fondly worships You.

Word-by-word Meaning

P O Lord zrI rAma! rAma! rAma! O Lord nArAyaNa - the Moon (sOma) of ocean (abdhi) of the mind (mAnasa) of lakSmI (zrI)!

O Lord who has realized (Apta) all desires (kAma)! O Lotus (naLina) Eyed (akSa) (naLinAkSa)! May you lie down (pavvaliJcu).

C1 O Excellent (varENya) Lord with blossom (pallava) like lips (adhara) (pallavAdhara) ! O Lion (siMha) against elephant(s) (ibha) of sins (pApa) (pApEbha)! O the Auspicious one (dhanya)!

O Lord mAdhava! May You lie down (pavvaliJcu) on (andu) the bed (talpamu) (talpamandu) of jasmine (mallikA) flowers;

O Lord zrI rAma! rAma! rAma! O Lord nArAyaNa - the Moon of ocean of the mind of lakSmI! O Lord who has realised all desires! O Lord of Lotus Eyed! May you lie down.

C2 O Lord who has body (dEha) with the splendour (Abha) of rain-cloud (dhArA dhara) (dharAbha)! O Moon – Lord (adhipa) of stars (tArA) - Faced (Anana) (tArAdhipAnana)!

O Lord zrI rAma! I have always (sadA) been desiring (kOriyuNTi) Your (nI) arrival (rAka). May You lie down (pavvaliJcu).

O Lord zrI rAma! rAma! rAma! O Lord nArAyaNa - the Moon of ocean of the mind of lakSmI! O Lord who has realized all desires! O Lord of Lotus Eyed! May you lie down.

C3 Having born (puTTi) in the family (iNTa) (literally house) of King (rAju) (rAjiNTa) janaka and having married (ceTTa paTTi) (literally take hand) You, jAnaki is now waiting (kAcinadi) on You holding (paTTi) a golden (kanakamau) fan (suraTi) in her hand; May you lie down (pavvaliJcu);

O Lord zrI rAma! rAma! rAma! O Lord nArAyaNa - the Moon of ocean of the mind of lakSmI! O Lord who has realized all desires! O Lord of Lotus Eyed! May you lie down.

C4 sIta - the brilliance of whose golden-hued (svarNambu) body (mEnu) is beyond (taramu kAni) description (varNimpa),

is worshipping (pUjiJcu) You with total (pUrNamau) devotion (bhakti) (bhaktitOnu); may you lie down (pavvaliJcu).

O Lord zrI rAma! rAma! rAma! O Lord nArAyaNa - the Moon of ocean of the mind of lakSmI! O Lord who has realized all desires! O Lord of Lotus Eyed! May you lie down.

C5 O Lord reclining nicely (su-zayana) on the couch of zESa – the wind (Azuga) eater (azana) (AzugAzana)! O Lotus (ambhOja) petal (patra) Eyed (nayana)!

may you lie down (pavvaliJcu) as this tyAgarAja (tyAgarAju) very fondly (AzatO) worships (arciJca) You;

O Lord zrI rAma! rAma! rAma! O Lord nArAyaNa - the Moon of ocean of the mind of lakSmI! O Lord who has realized all desires! O Lord of Lotus Eyed! May you lie down.

Notes –

General – In the books of CR, ATK, the rAga of the kRti is given as 'gOpika vasantaM'. In the book of TSV/AKG, the alternative rAga given is 'gOpika vasantaM'. This needs to be checked. Any suggestions ???

P – Apta kAma – Realized one's ambition - For the meaning of the word, please refer to the following verse from zrImad-bhAgavataM, Book 10, Chapter 32 –

bhajatO(a)pi na vai kEcid bhajntyabhata: kRta: |
AtmArAmA hyAptakAmA akRtajnA gurudruha: || 19 ||

“Some indeed do not love even those that love them, much less those that do not love them. They are either sages revelling in their own self or those who have realized their ambition or dullards or ungrateful people.”

C5 – arciJca – This is how it is given in the books of TKG. However, in the books of TSV/AKG and CR, it is given as 'arciJcu'. However, the meaning derived is that of 'arciJca'. Therefore, 'arciJca' has been adopted. This needs to be checked. Any suggestions ???

Devanagari

प. श्री राम राम राम श्री मान(सा)ब्धि सोम

नाराय(णा)प्त काम नळि(ना)क्ष पव्वळिञ्चु

च1. पल्ल(वा)धर वरेण्य पा(पे)भ सिंह धन्य

मल्लिका तल्प(म)न्दु माधव पव्वळिञ्चु (श्री)

च2. धारा ध(रा)भ देह ता(रा)धि(पा)नन सदा

नी राक कोरि(यु)ण्टि श्रीराम पव्वळिञ्चु (श्री)

च3. जनक रा(जि)ण्ट पुट्टि जानकि चेट्ट पट्टि

कनकमौ सुरटि पट्टि काचिनदि पव्वळिञ्चु (श्री)

च4. वर्णिम्प तरमु कानि स्वर्णम्बु मेनु सीत

पूर्णमौ भक्तितोनु पूजिञ्चु पव्वळिञ्चु (श्री)

च5. आशु(गा)शन सु-शयन अम्भोज पत्र नयन

आशतो त्यागराजु अर्चिञ्चु पव्वळिञ्चु (श्री)

English with Special Characters

- pa. śrī rāma rāma rāma śrī māna(sā)bdhi sōma
nārāya(ṇā)pta kāma naḷi(nā)kṣa pavvaḷiñcu
- ca1. palla(vā)dhara varēṇya pā(pē)bha siṃha dhanya
mallikā talpa(ma)ndu mādharma pavvaḷiñcu (śrī)
- ca2. dhārā dha(rā)bha dēha tā(rā)dhi(pā)nana sadā
nī rāka kōri(yu)ṇṭi śrīrāma pavvaḷiñcu (śrī)
- ca3. janaka rā(ji)ṇṭa puttī jānaki ceṭṭa paṭṭi
kanakamau suraṭi paṭṭi kācinadi pavvaḷiñcu (śrī)
- ca4. varṇimpa tarāmu kāni svarṇambu mēnu sīta
pūrṇamau bhaktitōnu pūjīñcu pavvaḷiñcu (śrī)
- ca5. āśu(gā)śana su-śayana ambhōja patra nayana
āśatō tyāgarāju arcīñca pavvaḷiñcu (śrī)

Telugu

- ప. శ్రీ రామ రామ రామ శ్రీ మాన(సా)బ్ధి సోమ
నారాయ(ణా)ప్త కామ నళి(నా)క్ష పవ్వళిఱ్ఱు
- చ1. పల్ల(వా)ధర వరేణ్య పా(పే)భ సింహ ధన్య
మల్లికా తల్ప(మ)న్దు మాధవ పవ్వళిఱ్ఱు (శ్రీ)
- చ2. ధారా ధ(రా)భ దేహ తా(రా)ధి(పా)నన సదా
నీ రాక కోరి(యు)ణ్ణి శ్రీరామ పవ్వళిఱ్ఱు (శ్రీ)
- చ3. జనక రా(జి)ణ్ణ పుట్టి జానకి చెట్ట పట్టి
కనకమౌ సురటి పట్టి కాచినది పవ్వళిఱ్ఱు (శ్రీ)
- చ4. వర్ణిమ్మ తరము కాని స్వర్ణమ్ము మేను సీత
పూర్ణమౌ భక్తితోను పూజిఱ్ఱు పవ్వళిఱ్ఱు (శ్రీ)
- చ5. ఆశు(గా)శన సు-శయన అమ్మోజ పత్ర నయన
ఆశతో త్యాగరాజు అర్చిఱ్ఱు పవ్వళిఱ్ఱు (శ్రీ)

Tamil

- ప. పునీ రామ రామ రామ
పునీ మాన(సా)ప్³తి⁴ సోమ
నారాయ(ణా)ప్త కామ
నగ్గి(ణా)క్కు పవ్వళిఱ్ఱు
- చ1. పల్ల(వా)త⁴ర వరేణ్య
పా(పే)ప⁴ సీమంఱ త⁴న్య
మల్లికా తల్ప(మ)న్దు³

- மாத⁴வ பவ்வளிஞ்சு (பூநீ)
- ச2. தா⁴ரா த⁴(ரா)ப⁴ தே³ஹ
 தா(ரா)தி⁴(பா)னன ஸதா³
 நீ ராக கோரியுண்டி
 பூநீ ராம பவ்வளிஞ்சு (பூநீ)
- ச3. ஜனக ரா(ஜி)ண்ட புட்டி
 ஜானகி செட்ட பட்டி
 கனகமௌ ஸுரடி பட்டி
 காசினதி³ பவ்வளிஞ்சு (பூநீ)
- ச4. வர்ணிம்ப தரமு கானி
 ஸ்வர்ணம்பு³ மேனு ஸீத
 பூர்ணமௌ ப⁴க்திதோனு
 பூஜிஞ்சு பவ்வளிஞ்சு (பூநீ)
- ச5. ஆ ஸு(கா³)ஸன ஸு-ஸயன
 அம்போ⁴ஜ பத்ர நயன
 ஆ ஸதோ த்யாக³ராஜு
 அர்சிஞ்சு பவ்வளிஞ்சு (பூநீ)

இராமா! இராமா! இராமா!
 இலக்குமி உள்ளக் கடலின் மதியே,
 நாராயணா! விழைவுகள் நிறைவேறப் பெற்றோனே!
 கமலக்கண்ணா! பள்ளிகொள்வாய்

1. மொட்டிதழினனே! தலைசிறந்தவனே!
 பாவமெனும் கரிக்கு சிங்கமே! மங்களமானவனே!
 மல்லிகைப் படுக்கையினில்,
 மாதவா! பள்ளிகொள்வாய்
2. கார்முகில் நிகருடலோனே!
 மதி முகத்தோனே! எவ்வமயமும்,
 உனது வரவையே கோரியிருந்தேன்,
 இராமா! பள்ளிகொள்வாய்
3. சனக மன்னன் இல்லத்தினில் பிறந்து,
 சானகி, (உனது) கை பற்றி,
 பொன்னாலான விசிறி பிடித்து,
 காத்துள்ளனள், பள்ளிகொள்வாய்
4. வருணிக்கவியலாத,
 பொன்மேனியள் சீதை,
 முழுமையான பத்தியுடன்
 தொழுகின்றனள், பள்ளிகொள்வாய்
5. காற்றுண்போன்மீது துயில்வோனே!
 தாமரையிதழ்க் கண்ணா!
 ஆசையுடன், தியாகராசன்

ಅರುಚ್ಚಿಕ, ಪಟ್ಟಣಿಕೊಳ್ವಾಯ್;
ಇರಾಮಾ! ಇರಾಮಾ! ಇರಾಮಾ!
ಇಲಕ್ಕುಮಿ ಒಲ್ಲಕ್ಕ ಕಡಲಿನ್ ಮತಿಯೇ, ನಾರಾಯಣಾ!
ವಿಞ್ಜಿವುಕ್ಕ ನ್ನಿಞ್ಜಿವೇಱ್ ಪೆಱ್ಱೋಣೇ!
ಕಮಲಕ್ಕಣ್ಣಾ! ಪಟ್ಟಣಿಕೊಳ್ವಾಯ್

ಕಾಱ್ಱುಣ್ಣಪೋನ್ - ಅರವು - ಚೇಡನ್

Kannada

- ಪ. ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀ ಮಾನ(ಸಾ)ಭಿ ಸೋಮ
ನಾರಾಯ(ಣಾ)ಪ್ತ ಕಾಮ ನಳಿ(ನಾ)ಕ್ಷ ಪವ್ವಳಿಞ್ಜು
ಚಗ. ಪಲ್ಲ(ವಾ)ಧರ ವರೇಣ್ಯ ಪಾ(ಪೇ)ಭ ಸಿಂಹ ಧನ್ಯ
ಮಲ್ಲಿಕಾ ತಲ್ಲ(ಮ)ನ್ದು ಮಾಧವ ಪವ್ವಳಿಞ್ಜು (ಶ್ರೀ)
ಚ೨. ಧಾರಾ ಧ(ರಾ)ಭ ದೇಹ ತಾ(ರಾ)ಧಿ(ಪಾ)ನನ ಸದಾ
ನೀ ರಾಕ ಕೋರಿ(ಯು)ಣ್ಣಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಪವ್ವಳಿಞ್ಜು (ಶ್ರೀ)
ಚ೩. ಜನಕ ರಾ(ಜಿ)ಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಿ ಜಾನಕಿ ಚಿಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿ
ಕನಕಮೌ ಸುರಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಚಿನದಿ ಪವ್ವಳಿಞ್ಜು (ಶ್ರೀ)
ಚ೪. ವರ್ರಿಮ್ಮ ತರಮು ಕಾನಿ ಸ್ವರ್ರಿಮ್ಮ ಮೇನು ಸೀತ
ಪೂರ್ರಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿತೋನು ಪೂಜಿಞ್ಜು ಪವ್ವಳಿಞ್ಜು (ಶ್ರೀ)
ಚ೫. ಆಶು(ಗಾ)ಶನ ಸು-ಶಯನ ಅಮ್ಮೋಜ ಪತ್ರ ನಯನ
ಆಶತೋ ತ್ಯಾಗರಾಜು ಅರಿಞ್ಜು ಪವ್ವಳಿಞ್ಜು (ಶ್ರೀ)

Malayalam

೧. ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀ ಮಾನ(ಸಾ)ಭಿ ಸೋಮ
ನಾರಾಯ(ಣಾ)ಪ್ತ ಕಾಮ ನಳಿ(ನಾ)ಕ್ಷ ಪವ್ವಳಿಞ್ಜು
೨. ಪಲ್ಲ(ವಾ)ಧರ ವರೇಣ್ಯ ಪಾ(ಪೇ)ಭ ಸಿಂಹ ಧನ್ಯ
ಮಲ್ಲಿಕಾ ತಲ್ಲ(ಮ)ನ್ದು ಮಾಧವ ಪವ್ವಳಿಞ್ಜು (ಶ್ರೀ)
೩. ಧಾರಾ ಧ(ರಾ)ಭ ದೇಹ ತಾ(ರಾ)ಧಿ(ಪಾ)ನನ ಸದಾ
ನೀ ರಾಕ ಕೋರಿ(ಯು)ಣ್ಣಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಪವ್ವಳಿಞ್ಜು (ಶ್ರೀ)
೪. ಜನಕ ರಾ(ಜಿ)ಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಿ ಜಾನಕಿ ಚಿಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿ
ಕನಕಮೌ ಸುರಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಚಿನದಿ ಪವ್ವಳಿಞ್ಜು (ಶ್ರೀ)
೫. ವರ್ರಿಮ್ಮ ತರಮು ಕಾನಿ ಸ್ವರ್ರಿಮ್ಮ ಮೇನು ಸೀತ
ಪೂರ್ರಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿತೋನು ಪೂಜಿಞ್ಜು ಪವ್ವಳಿಞ್ಜು (ಶ್ರೀ)
೬. ಆಶು(ಗಾ)ಶನ ಸು-ಶಯನ ಅಮ್ಮೋಜ ಪತ್ರ ನಯನ
ಆಶತೋ ತ್ಯಾಗರಾಜು ಅರಿಞ್ಜು ಪವ್ವಳಿಞ್ಜು (ಶ್ರೀ)

Assamese

- প. শ্ৰী ৰাম ৰাম ৰাম শ্ৰী মান(সো)ন্ধি সোম
নাৰায়(ণা)প্ত কাম নলি(না)ক্ষ পৰ্ৱলিখুও
- চ১. পল্ল(ৰা)ধৰ ৰবেশ্য পা(পে)ভ সিংহ ধন্য
মল্লিকা তল্ল(ম)ন্দু মাধৱ পৰ্ৱলিখুও (শ্ৰী)
- চ২. ধাৰা ধ(ৰা)ভ দেহ তা(ৰা)ধি(পা)নন সদা
নী ৰাক কোৰি(য়ু)ন্টি শ্ৰীৰাম পৰ্ৱলিখুও (শ্ৰী)
- চ৩. জনক ৰা(জি)ণ্ট পুট্টি জানকি চেট্ট পট্টি
কনকমৌ সুৰটি পট্টি কাচিনদি পৰ্ৱলিখুও (শ্ৰী)
- চ৪. বৰ্ণি□ তৰমু কানি স্বৰ্ণসু মেনু সীত (varṇimpa)
পূৰ্ণমৌ ভক্তিতোণু পূজিখুও পৰ্ৱলিখুও (শ্ৰী)
- চ৫. আশু(গা)শন সু-শয়ন অস্তোজ পত্ৰ নয়ন
আশতো আগৰাজু অৰ্চিখুও পৰ্ৱলিখুও (শ্ৰী)

Bengali

- প. শ্ৰী ৰাম ৰাম ৰাম শ্ৰী মান(সো)ন্ধি সোম
নাৰায়(ণা)প্ত কাম নলি(না)ক্ষ পৰ্বলিখুও
- চ১. পল্ল(বা)ধৰ বৰেশ্য পা(পে)ভ সিংহ ধন্য
মল্লিকা তল্ল(ম)ন্দু মাধব পৰ্বলিখুও (শ্ৰী)
- চ২. ধাৰা ধ(ৰা)ভ দেহ তা(ৰা)ধি(পা)নন সদা
নী ৰাক কোৰি(য়ু)ন্টি শ্ৰীৰাম পৰ্বলিখুও (শ্ৰী)
- চ৩. জনক ৰা(জি)ণ্ট পুট্টি জানকি চেট্ট পট্টি
কনকমৌ সুৰটি পট্টি কাচিনদি পৰ্বলিখুও (শ্ৰী)
- চ৪. বৰ্ণি□ তৰমু কানি স্বৰ্ণসু মেনু সীত (varṇimpa)
পূৰ্ণমৌ ভক্তিতোণু পূজিখুও পৰ্বলিখুও (শ্ৰী)
- চ৫. আশু(গা)শন সু-শয়ন অস্তোজ পত্ৰ নয়ন
আশতো আগৰাজু অৰ্চিখুও পৰ্বলিখুও (শ্ৰী)

Gujarati

- પ. શ્રી રામ રામ રામ શ્રી માન(સા)બિધ સોમ
નારાય(ણા)પ્ત કામ નભિ(ના)ક્ષ પવ્વભિઞ્ચુ
ચ૧. પલ્લ(વા)ધર વરેણ્ય પા(પે)ભ સિંહ ધન્ય
મલ્લિકા તલ્પ(મ)ન્દુ માધવ પવ્વભિઞ્ચુ (શ્રી)
ચ૨. ધારા ધ(રા)ભ દેહ તા(રા)ધિ(પા)નન સદા
ની રાક કોરિ(યુ)ણિટ શ્રીરામ પવ્વભિઞ્ચુ (શ્રી)
ચ૩. જનક રા(જિ)ણ્ટ પુટ્ટિટ જનકિ ચંટ્ટ પટ્ટિટ
કનકમૌ સુરટિ પટ્ટિટ કાચિનદિ પવ્વભિઞ્ચુ (શ્રી)
ચ૪. વર્ણિમ્પ તરમુ કાનિ સ્વર્ણમ્બુ મેનુ સીત
પૂર્ણમૌ ભકિતતોનુ પૂર્ણિઞ્ચુ પવ્વભિઞ્ચુ (શ્રી)
ચ૫. આશુ(ગા)શન સુ-શયન અમ્બોજ પત્ર નયન
આશતો ત્યાગરાજુ અર્ચિઞ્ચ પવ્વભિઞ્ચુ (શ્રી)

Oriya

૯૦. શ્રી રામ રામ રામ શ્રી માન(સા)બિધ સોમ
નારાય(ણા)પ્ત કામ નભિ(ના)ક્ષ પવ્વભિઞ્ચુ
૯૧. પલ્લ(વા)ધર વરેણ્ય પા(પે)ભ સિંહ ધન્ય
મલ્લિકા તલ્પ(મ)ન્દુ માધવ પવ્વભિઞ્ચુ (શ્રી)
૯૨. ધારા ધ(રા)ભ દેહ તા(રા)ધિ(પા)નન સદા
ની રાક કોરિ(યુ)ણિટ શ્રીરામ પવ્વભિઞ્ચુ (શ્રી)
૯૩. જનક રા(જિ)ણ્ટ પુટ્ટિટ જનકિ ચંટ્ટ પટ્ટિટ
કનકમૌ સુરટિ પટ્ટિટ કાચિનદિ પવ્વભિઞ્ચુ (શ્રી)
૯૪. વર્ણિમ્પ તરમુ કાનિ સ્વર્ણમ્બુ મેનુ સીત
પૂર્ણમૌ ભકિતતોનુ પૂર્ણિઞ્ચુ પવ્વભિઞ્ચુ (શ્રી)
૯૫. આશુ(ગા)શન સુ-શયન અમ્બોજ પત્ર નયન
આશતો ત્યાગરાજુ અર્ચિઞ્ચ પવ્વભિઞ્ચુ (શ્રી)

Punjabi

- પ. શ્રી રામ રામ રામ શ્રી માન(સા)બિધ સોમ

ਨਾਰਾਯ(ਣਾ)ਪਤ ਕਾਮ ਨਲਿ(ਨਾ)ਕਸ਼ ਪੱਵਲਿਵਚੁ

ਚ੧. ਪੱਲ(ਵਾ)ਧਰ ਵਰੇਣਜ ਪਾ(ਪੇ)ਭ ਸਿੰਹ ਧਨਜ

ਮੱਲਿਕਾ ਤਲਪ(ਮ)ਨਦੁ ਮਾਧਵ ਪੱਵਲਿਵਚੁ (ਸ਼੍ਰੀ)

ਚ੨. ਧਾਰਾ ਧ(ਰਾ)ਭ ਦੇਹ ਤਾ(ਰਾ)ਧਿ(ਪਾ)ਨਨ ਸਦਾ

ਨੀ ਰਾਕ ਕੋਰਿ(ਯੁ)ਣਿਟ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪੱਵਲਿਵਚੁ (ਸ਼੍ਰੀ)

ਚ੩. ਜਨਕ ਰਾ(ਜਿ)ਣਟ ਪੁੱਟਿ ਜਾਨਕਿ ਚੋਟ ਪੱਟਿ

ਕਨਕਮੋ ਸੁਰਟਿ ਪੱਟਿ ਕਾਚਿਨਦਿ ਪੱਵਲਿਵਚੁ (ਸ਼੍ਰੀ)

ਚ੪. ਵਰਿਣਮਪ ਤਰਮੁ ਕਾਨਿ ਸ੍ਰਰਣਮਥੁ ਮੇਨੁ ਸੀਤ

ਪੂਰਣਮੋ ਭਕਿਤਤੋਨੁ ਪੂਜਿਵਚੁ ਪੱਵਲਿਵਚੁ (ਸ਼੍ਰੀ)

ਚ੫. ਆਸੁ(ਗਾ)ਸ਼ਨ ਸੁ-ਸ਼ਯਨ ਅਮਭੋਜ ਪੜ ਨਯਨ

ਆਸੁਤੋ ਤਜਾਰਗਾਜੁ ਅਰਿਚਵਚੁ ਪੱਵਲਿਵਚੁ (ਸ਼੍ਰੀ)